



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 ज्येष्ठ 1940 (श0)
(सं0 पटना 560) पटना, बुधवार 13 जून 2018

गृह विभाग
(आरक्षी भाखा)

अधिसूचना
8 जून 2018

सं0 2/आ0-70-13/2018 गृ0आ0-5070—श्री एस0ए0 हाशमी, पुलिस उपाधीक्षक, नगर पटना को कर्तव्य पालन के दौरान बरती गई कर्तव्यहीनता, नैतिक अधमता, संदिग्ध आचरण एवं अनुशासनहीनता के आरोप में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवाक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9 (1)(क)(ग) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन की अवधि में श्री हाशमी का मुख्यालय महानिदेशक, गृह रक्षा वाहिनी, बिहार, पटना का कार्यालय रहेगा।

3. निलंबन की अवधि में श्री हाशमी को बिहार सेवा संहिता के नियम-96 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

4. निलंबन की अवधि में श्री हाशमी सक्षम पदाधिकारी के आदेश के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

5. श्री हाशमी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अलग से संचालित की जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ईश्वर चन्द्र सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 560-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>